

न्यूज पलैश

भारतीय कृषि में क्रान्तिकारी बदलाव
-बीकटी ने इनोवेटिव बीकटी
कमांडर रेडियल लॉन्च किया

मुंबई: भारत, 19 जून, 2024: वैशिख आफ़-हार्दिवे टायर बाजार में एक अंग्रेजी खिलाड़ी, ब्रह्मकृष्ण इंडस्ट्रीज रेडियल के लॉन्च की घोषणा की। यह नया प्लॉ-रेडियल टायर शुरू में दो आकारों में उपलब्ध है - 440/85 आर 28 (17.9 आर 28) और 400/85 आर 28 (15.9 आर 28) - इसमें भारतीय किसानों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए खास इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है, जो टायर प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया करता है। भारत का टायर, बीकटी की एक प्रतीक है। यह बीकटी की एक ऐसी कंपनी के रूप में परिस्थिति करता है जो वास्तव में भारत में निर्मित है और भारत निर्माण के के लिए समर्पित है। इसके अलावा, भारत का टायर, भारतीय किसानों को कृषि उत्पादकता और स्थिति बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक टायर समाधान प्रदान करने के लिए कंपनी का प्रतीक है। बीकटी कमांडर रेडियल को कृषि प्रतीकों की समरण का प्रतीक है। बीकटी कमांडर रेडियल के लिए साक्षात् पूर्वानुरूपक डिजाइन किया गया है। मजबूत डुअल-एंपल लग्स की विशेषता के साथ, यह टायर उत्कृष्ट कार्यण (ट्रैक्सन) और स्वरूप-साफ़ी गुणों को सुनिश्चित करता है। फैलूं संचालन में काफ़ी सुधार करता है और टायर के जीवनकाल को बढ़ाता है। उन्हें निर्माण में मजबूत बहुस्तरीय बैटरी और एक कट-एंड-चिप-प्रतिरोधी कंपांडर शामिल है, जो मिट्टी की जुगाई, डूलाई और कार्पेट कार्पेट के लिए बेहतर पवर प्रतिरोध प्रदान करता है। टिकाऊ

पॉलिस्टर कारक्स द्वारा स्थानीय और भारत क्षमता को और बढ़ाता है, जिससे टायर विभिन्न मिट्टी की स्थितियों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। बीकटी कमांडर रेडियल में एक बड़ा पर्चिवाही भी है जो मिट्टी के संचालन का कम करता है, जो खासी की संरक्षण और उत्तराधीनों को बनाए रखने के लिए एक अत्यधिक कारंफ़र है। इसमें मिट्टी का संचालन कम होने से न केवल पर्चिवारों को लाभ होता है, बल्कि यह बेहतर ईंधन भी बचता है, व्याकूप ट्रैक्टर कम प्रतीरोधी और कम ईंधन खपत का अनुभव करते हैं ये विशेषताएं डिकाऊ कृषि परिस्थितियों के अनुरूप हैं, जो बीकटी कमांडर रेडियल को पर्यावरण के प्रति जापरक किसानों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाती है।

एलएनजेपी अस्पताल में रक्तदान शिविर कल

टीम एक्शन इंडिया
दलबीर मलिक
कुरुक्षेत्र: सर्व समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा एलएनजेपी अस्पताल के लड़ बैंक में 22 जून शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। जानकारी देने हुए समिति के प्रदेशाधीक्ष रामेश्वर सैनी ने बताया कि शिविर शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक लगाया जाएगा। शिविर में 18 से 80 वर्ष के सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों के रक्तदान करने के लिए एक अवश्यक कारोबार है। रक्तदान के लिए ग्राहक नाशा कारोबार के अवश्यक करते हैं। रक्तदान करने से हाई एटेक की बीमारी नहीं आती और व्यक्ति रखता है।

उपायुक्त ने काजल को दिलाई नवनिर्वाचित प्रधान पद की शपथ

पानीपत/कमाल हुसैन
उपायुक्त के माध्यम से जीवन दिवारी को जिला संविधान विधायिका में वार्ड नंबर 13 की जिला परिषद सदस्य काजल को स्वास्थ्य दिवारी व उनके उत्तराधीन भवित्व की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दी। उपायुक्त ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पद है जिसका संबंध आम व्यक्ति से है। उन्हें उमीद है कि वे इस पद की गिरिया को ध्यान में रख कर विकास की गति में तेजी लाएंगी व सभी परिषद सदस्यों को साथ लेकर जिले को विकास करें। इस मौके पर जिला परिषद के कार्यालयी अधिकारी गौरव कुमार ने उन्हें वैरयरमैन पदार्थीन कराया।

टीम एक्शन इंडिया
दलबीर मलिक
कुरुक्षेत्र : गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चल रहे गार्डीय शिविर में आज सभी आर्य वीरांगनाओं को ज्ञान-हवान करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही उन्हें यज्ञ करने से होने वाले अनेक लाभों के बारे में जीवनस्थिति जानकारी दी गई। कन्या गुरुकुल सप्तरी बहन मीन अर्थात् के ब्रह्मात्र में सम्पन्न हुए प्रतीकालीन सम्मान-हवान में सभी आर्य वीरांगनाओं ने उत्साह से भाग लिया और गोहृत व साकल्य सामग्री से आहूति देकर समस्त विश्व के कल्पाण की कामना की। ज्ञान रहे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में महामहिम

सामान्य तथा धान ए ग्रेड में 117 रुपए, ज्ञार हाइड्रीड 191, ज्ञार मालडंडी 196, ज्ञारा 125 रुपए, रागी 444 रुपए, मस्का 135,, अरहर 550, मूँग 124 रु, उड़र 450, मूँगफली में 406 रु, सूज 632 रु, नाइजर सोडीस 983रु, कपास मिडल स्टेपल तथा कपास लॉन्स स्टेपल्स 501 की भारी वृद्धि की गई। उन्होंने की सरकारों में गेहूं तथा धान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद

करती थी वही मोदी सरकार रिकार्ड 14 फैसले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर के किसान आयोगों का ध्यान रख रहे। सलूजा ने आगे कहा की पहले समर्थन मूल्य की घोषणा तब होती थी जब किसान की आधी फसल मंडी पहुंच चुकी होती थी मोदी ने बुर्बाद के समय ही सर्वथन मूल्य की घोषणा की परंपरा शुरू करने की भालाई के काम किया गया। बैठक में आगामी पर्यावार में होनेवाले कार्यक्रमों के लेकर चर्चा हुई व पदाधिकारियों से आहूति वाहनों के बीच विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रेरणा से सावदेशिक आर्य वीरांगना दल की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्रबंधक समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

राज्यपाल आचार्य श्री देवव्रत जी की प्रधान संचालिका श्रीमती व्रतिका आर्या द्वारा किया जा रहा है। ज्ञान घरों में दृष्टिकोण की अवधारणा की विशेषता विश्वविद्यालय में 400 युवतियों का यह समिति सहित मुख्य संरक्षक संघीय

- सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को दें ज्यादा से ज्यादा पानी का सहारा
- गर्मी में निकलने से पहले करें सनस्क्रीन यूज
- घर से टोपी, छाता व काला चश्मा ही पहन के निकलें



सनस्क्रीन 20 मिनट पहले लगाएँ : सनस्क्रीन बाहर निकलने से 20 मिनट पहले लगा लें व्यक्ति इसे जरूर होने में इतना समय लगता है। पूरे दिन में कई बार सनस्क्रीन लगाएं। यदि आपको इसकी तैलीय प्रकृति नापसंद हो तो आप इसमें कैलामाइन लोशन या टैक्सम पॉवर लिला ले।

ब्लैक गॉगल्स व हैट: हमेशा चौड़ा हैट पहनें और ब्लैक गॉगल्स लगाकर ही बाहर निकलें। हो सके तो सफेद या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनें व्यक्ति ये तापमान नहीं सोखते। काटन के कपड़ों हवा पास होती रहती है।

टमाटर टैनिंग से छुटकारा दिलाइँ : टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए टमाटर का जूस का प्रयोग करें। इसका प्रयोग दिन में दो बार किया जा सकता है। टमाटर विटामिन-सी से भरपूर होते हैं। इन्हें रोजाना खाना चाहिए।

पानी, शरबत व रसीले फल खा कर जाएँ बाहर : बाहर निकलने से पहले खूब सारा पानी पी लें व्यक्ति गर्मियों में शरीर की नमी तेजी से निकल जाती है। हाट स्ट्रॉक होने का भी यही एक बड़ा कारण है छाछ, कैरी का पन्ना, शरबत और रसीले फल शरीर की नमी को बरकरार रखते हैं।

कीवी नमी बनाएँ रखता है: कीवी शरीर की नमी बनाए रखता है। हो सके तो इन गर्मियों में एक कीवी जरूर खाएँ वह शरीर की नमी को बनाए रखने का एक धरेलू उपाय है।

खुबानी और शहद का लोशन यूज करें: खुबानी और शहद से बने लोशन से त्वचा

धूप में निकलने से पहले..

दौस्तों गर्मियां आ पहुंची हैं। ऐसे में आप अपनी स्किन और शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होंगे। गर्मियां तो होती ही हैं परेशानी देने वाली, इसमें आपके पसीने छूटने तो लाजमी ही हैं। अब जबतक गर्मियां हैं तबतक आप अपने काम-काज तो बंद करके तो बैठ नहीं जाएंगे, काम तो 12 महीनों ही करना है। इन 12 महीनों में हम न जाने कौन-कौन से थेड़ों से जूजते हैं, इन सबसे ज्यादा परेशान तो गर्मी ही करती है। बाहर आना-जाना सबसे ज्यादा परेशान करता है। चिपचिपा पसीना, बढ़ा हुआ तापमान, धूल और पानी की कमी का सीधा असर पूरे शरीर और त्वचा पर पड़ता है। धूप में शरीर का जो हिस्सा खुला रहता है वह झुलसा जाता है। बहुत लंबे समय तक सनबन होता रहे तो त्वचा पर उम्र का असर दिखाई देने लगता है। त्वचा कांतिहीन हो जाती है और उम्र से पहले ही बुढ़ापा दिखाई देने लगता है। गर्मियों के मौसम में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको अपनी जीवनशैली में चंद परिवर्तन करने होंगे।



ऐसे में धूप में निकलने से पहले इनको भी अपनाएँ

गुलाब की पत्तियों जैसी नम्भ और मुलायम हो जाती है। सनबन होने पर बर्फ करें यूज़ : यदि किसी बजह से सनबन हो गया है तो वहां बर्फ लगाएँ और तापमान को कम करने की कोशिश करें। यहां अन्य कोई लेप या क्रीम या मास्क न लगाएँ।

पानी का करें यूज़ : बाहर निकलने से पहले आप भरपूर पानी पीए, धूप में आपकी बॉडी गर्म हो जाती है पानी आपकी बॉडी को समाचार बनाए रखेगा।

संतरे ठंडक देता है: संतरे का रस भरपूर ठंडक देता है, संतरा और उसका रस उम्र को पेर धकेलने में सहायक होता है।

कुछ एंटीबायटिक बार बार लेने से मधुमेह!

कुछ एंटीबायटिक बार बार लेने से मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है। योरेपियन जनल ऑफ इंडोक्रिनालजी के अनुसार कुछ एंटीबायटिक बार-बार लेने से 'टाइप टू डायबिटीज' का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा विशेषज्ञों ने एंटीबायटिक के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के गैस्टोएन्ट्रालजी एंड मेडिकल ऑफिसोलॉजी के शोधकर्ता डा. बेन बोरसी के अनुसार एंटीबायटिक के कारण हमारे पावनतंत्र पर खराब असर पड़ता है।

इससे 'गट बैक्टीरिया' (आंतों के बैक्टीरिया) के सक्रिय होने की आशंका बढ़ जाती है। इससे शरीर के मैकेनिज्म पर खराब असर पड़ता है और मोटापा बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। मोटापा बढ़ना इसुलिन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है।



■ एंटीबायटिक के कारण हमारे पावनतंत्र पर खराब असर पड़ता है

■ इससे 'गट बैक्टीरिया' (आंतों के बैक्टीरिया)

के सक्रिय होने की आशंका बढ़ जाती है

■ लिहाजा मोटापा बढ़ता है और इसुलिन की

प्रतिरोधक क्षमता कम होती है

होने के खतरे को उजागर किया है। ब्रिटेन में टाइप टू डायबिटीज मरीज से पीड़ित लोगों की मेडिकल डिस्ट्री पर नकर डाली गई। इसमें यह निकर्ष सामने आया कि टाइप टू डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को पहले 'पेनसिलीन्स', 'सेपेहेलोस्पोरिस्न', 'क्रीनोलोन्स' और 'मैक्रोलाइड्स' आदि का कम से कम दो बार कोर्स किया था। इसमें से 'क्रीनोलोन्स' सांस के रोगियों और 'यूरीनरी ट्रेक इंफेक्शन' के मरीजों आदि को दो जाती हैं। ब्रिटेन में 30 लाख लोग टाइप टू डायबिटीज से पीड़ित हैं। भारत सहित कई देशों में मधुमेह पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत में मधुमेह मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ने की आशंका है।

टाईम पास

लॉफिंग ज़ोन

एक बहरा अपने बीमार मित्र को देखने जा रहा था। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगा कि ज्यादा बातें करुंगा तो कुछ का कुछ सुनाइ देगा। इसलिए कम से कम बालंगा। सबसे पहले पूछूंगा कि तबीयत कैसी है? मित्र कहेगा ठीक है, फिर पूछूंगा कि किसकी दवा चल रही है? वह डॉक्टर का नाम बता देगा। सोचते-सोचते बीमार का घर आ गया। मित्र से मिलते ही बहरा बोला, 'कहो कैसी तबीयत है?' बीमार - 'मर रहा हूँ।'

बहरा - अग्रणी ही है, भगवान करे ऐसा ही हो, दवा किसकी चल रही है?

बीमार - यमराज की।

बहरा - अच्छा डॉक्टर है, खाने को क्या बताया है?

बीमार - पत्थर.

बहरा - ठीक है, पचने में हल्के होते हैं।

बीमार - चुप्ता है, बहरा को बताया होगा।

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

बीमार - यमराज का रस आपने किसी देश में खाया है?

